



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

नवंबर 21, 2025

संख्या 47

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	नवंबर 15	नवंबर 07	नवंबर 14	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3526698	3803582	3810598	7016	283900
1.1 संचलन में नोट	3526683	3803571	3810583	7012	283900
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	15	11	16	5	1
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	-1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	43	42	42	0	-1
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1008450	770670	782080	11410	-226370
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8248	6721	6753	32	-1495
2.6 अन्य बैंक	55763	44673	44385	-288	-11378
2.7 अन्य	466303	685558	681763	-3794	215460
3 अन्य देयताएं	1829501	2562492	2620935	58443	791434
कुल देयताएं / आस्तियां	6895107	7873838	7946657	72819	1051550
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4846996	5013326	5019121	5795	172125
2 सोना	554921	900234	948278	48044	393357
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1268291	1718222	1731939	13717	463648
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	11817	0	0	0	-11817
4.2 राज्य सरकारें	28634	36937	31808	-5129	3174
4.3 नाबाई	0	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	6623	916	2158	1242	-4465
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	158593	181678	190547	8869	31954
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	17169	20461	20743	282	3574

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	नवंबर 14, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6146082	692576	54399	5543	433942	24250	593211	34685
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	4989889	562290	5631	152	139055	-5268	180257	-7545
1.2 स्वर्ण	948278	106857	48044	5327	280116	28681	393357	41112
1.3 विशेष आहरण अधिकार	165502	18650	640	56	10213	481	13032	585
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	42413	4779	84	8	4558	356	6565	532

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

नवंबर 14, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 797387 करोड़	2025													
	नवंबर 01	नवंबर 02	नवंबर 03	नवंबर 04	नवंबर 05	नवंबर 06	नवंबर 07	नवंबर 08	नवंबर 09	नवंबर 10	नवंबर 11	नवंबर 12	नवंबर 13	नवंबर 14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	896096	894269	820536	795286	779503	789684	776667	776440	773989	771012	774796	774834	781697	788080
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	112.4	112.1	102.9	99.7	97.8	99.0	97.4	97.4	97.1	96.7	97.2	97.2	98.0	98.8

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	अक्टूबर 31, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	323777	6558	-4607	14364	47177	33914
1.2 बैंकों से उधार	85927	1758	-46531	-26049	-59705	-49971
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	27504	1767	-47482	-2412	-47864	2534
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	24173858	290565	1552309	1593257	2315446	2146323
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.2	7.6	7.1	11.7	9.7
2.1.1 मांग	3100879	127181	118888	402830	274000	538138
2.1.2 मीयादी	21072979	163384	1433420	1190427	2041446	1608185
2.2 उधारियां	846241	-14557	85512	-69008	30487	-17214
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1083201	-9215	12807	21569	68285	132966
3 रिज़र्व बैंक से उधार	5489	-3244	-213684	-305977	-54784	-3543
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	930650	15442	64010	-33639	55984	-154275
4.1 उपलब्ध नकदी	87703	-44	3523	5829	-1749	-5253
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	842947	15486	60487	-39467	57733	-149022
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	246662	3339	8182	30861	18081	40153
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	15240	-1665	9579	-10598	-8700	-6695
5.3 बैंकों को अग्रिम	32719	958	-4763	-6785	-8150	-10886
5.4 अन्य आस्तियां	63915	6648	-54666	-3438	-33261	3157
6 निवेश	6889910	4836	450795	191983	444468	332558
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	7.4	2.9	7.3	5.1
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6889415	4956	451181	192117	445164	332625
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	495	-120	-386	-135	-696	-67
7 बैंक ऋण	19390500	178071	987368	1146527	1835006	1970968
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.9	6.0	6.3	11.8	11.3
7 क.1 खाद्य ऋण	70371	17882	6974	33840	7251	40317
7 क.2 खाद्येतर ऋण	19320128	160189	980394	1112687	1827755	1930651
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	19026264	179919	971501	1116412	1791827	1920460
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	85925	-758	7451	10963	20668	18007
7 ख.3 भुनाए गए	243500	-716	10428	22441	22894	35714
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	12726	-192	-954	-2396	-218	-2732
7 ख.5 भुनाए गए	22084	-182	-1058	-892	-165	-481

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	नवंबर 15	अक्टूबर 17	अक्टूबर 24	अक्टूबर 31	नवंबर 07	नवंबर 14
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	3.50	3.50	3.50	3.25	3.25
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	5.04	3.83	..	3.85	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	79.44	80.44	..	80.21	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	67.41	74.34	..	71.96	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.69	28.83	..	28.50	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	27.77	14.37	..	12.05	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/7.95	7.80/7.95
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिंत औसत)	6.42	5.43	5.53	5.58	5.40	5.37
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.44	5.44	5.46	5.46	5.45	5.43
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.62	5.55	5.59	5.60	5.59	5.57
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.61	5.55	5.58	5.58	5.59	5.57
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.83	6.47	6.49	6.50	6.51	6.53
एफबीआईएल[®] संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.41	87.91	87.71	88.72	88.71	88.74
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	89.06	102.98	101.79	102.67	102.30	103.32
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.62	1.87	1.94	1.94	1.97	1.81
3-माह	1.68	2.08	2.08	1.98	2.01	1.94
6-माह	1.97	2.28	2.28	2.14	2.12	2.10

*प्रेस विज्ञापित संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीकी डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अक्टूबर 31	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28995100	280662	1.0	1592900	6.4	1708511	6.3	2585388	10.8	2462339	9.3
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3720037	-9055	-0.2	46964	1.4	89286	2.5	250760	7.8	262797	7.6
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3245747	126834	4.1	118251	4.6	405724	14.3	274276	11.3	540608	20.0
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21914146	162623	0.7	1422521	7.5	1211638	5.9	2034928	11.2	1643465	8.1
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	115169	260	0.2	5165	5.5	1863	1.6	25425	34.2	15468	15.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8739870	45935	0.5	470055	6.2	229045	2.7	541630	7.2	666245	8.3
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1529911	38886		17940		21806		94650		318758	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7209959	7049	0.1	452115	7.1	207239	3.0	446980	7.0	347486	5.1
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	20200593	176915	0.9	968310	5.6	1132465	5.9	1844685	11.3	2029452	11.2
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	13603	-1333		-5013		-24643		4157		4210	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	20186990	178248	0.9	973322	5.7	1157107	6.1	1840529	11.3	2025243	11.2
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6532531	-57079	-0.9	377756	6.8	384003	6.2	808066	15.7	587271	9.9
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	38864	0	0	1748	5.2	2232	6.1	3240	10.1	3684	10.5
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	6477524	6516758	-114891	-1.7	224968	4.1	39234	0.6	612234	12.1	824313	14.5
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	2147427	2559728	-49410	-1.9	114440	6.4	412301	19.2	366196	23.8	655154	34.4

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	नवंबर 14	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4796259	17283	0.4	100648	2.2	-32984	-0.7	328925	7.5	64165	1.4
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3849446	7012	0.2	50402	1.4	124999	3.4	206063	6.1	287583	8.1
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	833218	11154	1.4	47012	4.6	-158271	-16.0	99456	10.2	-239243	-22.3
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	113595	-883	-0.8	3234	3.4	289	0.3	23406	31.5	15825	16.2
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1633175	20161		115642		125070		206532		324320	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1601410	25290		93608		125950		195236		321146	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-237750	1126		-148129		-118735		-258639		-43474	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-247980	2114		-142872		-90719		-262548		-44555	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5967956	54090	0.9	159000	3.0	417008	7.5	586599	12.2	567873	10.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	38864			1748	5.2	2232	6.1	3240	10.1	3684	10.5
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	2147427	2605985	58094	2.3	27612	1.5	458558	21.4	208807	13.0	788239	43.4

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	ऋय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नवंबर 10, 2025	-	-	-	-	870	211369	-	-	4630	-205869
नवंबर 11, 2025	-	-	-	-	643	220994	160	-	4040	-216151
नवंबर 12, 2025	-	-	-	-	800	219951	-628	-	4455	-215324
नवंबर 13, 2025	-	-	-	-	800	249197	-519	-	1685	-247231
नवंबर 14, 2025	-	-	-	57380	2158	192759	-	-	-	-247981
नवंबर 15, 2025	-	-	-	-	1113	131941	-	-	-	-130828
नवंबर 16, 2025	-	-	-	-	125	110112	-	-	-	-109987

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	सितंबर	अक्टूबर	सितंबर	अक्टूबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	194.2	196.8	197.0	197.3	0.2	2.8	0.3
1.1 ग्रामीण	196.7	199.5	198.8	199.0	0.1	2.6	-0.3
1.2 शहरी	191.4	193.7	194.9	195.4	0.3	2.9	0.9
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	143.3	144.5	147.3	..	..	..	..
3 शोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	154.7	156.7	154.9	154.8	-0.1	0.0	-1.2
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	195.5	200.6	189.0	188.2	-0.4	1.5	-6.2
3.2 ईंधन और बिजली	147.2	148.8	143.4	145.0	1.1	-4.7	-2.6
3.3 विनिर्मित उत्पाद	141.9	142.9	145.2	145.1	-0.1	0.3	1.5

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अक्टूबर 31, 2025	514877	24530	5.76 - 6.46
नवंबर 14, 2025	534617	54949	5.50 - 6.63

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अक्टूबर 31, 2025	479630	52398	5.79 - 14.93
नवंबर 15, 2025	501658	66526	5.86 - 9.71

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	नवंबर 15, 2024	नवंबर 07, 2025	नवंबर 14, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	13985	27247	26594
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	4486	1968	8472
3 त्रिपक्षीय रेपो	837328	661749	807745
4 बाजार रेपो	601587	644166	831127
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	5371	15860	16424

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

नवंबर 14, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	7191	17093	80663	203563
182-दिवसीय	46225	38340	17930	187730
364-दिवसीय	73605	80783	45921	360121
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (नवंबर 14, 2025 तक)	2024-25 (नवंबर 15, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (नवंबर 14, 2025 तक)	2024-25 (नवंबर 15, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	938000	894697	1400697	633120	545271	1039275
2. राज्य सरकारें	584962	485346	1073310	386115	321125	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।